

Noesis Industries Limited

(Formerly MVL Industries Limited)

Registered Office : 1201-B, Hemkunt Chamber, 89, Nehru Place,

New Delhi - 110019 Tel : +91-11-41662674

CIN No.: L32109DL1986PLC026273

16th August, 2018

To,
The Manager
(Department of Corporate Services),
Bombay Stock Exchange Limited,
Phiroze Jeejee Bhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai - 400001

To,
The Manager - Listing Department,
National Stock Exchange of India Ltd.,
Exchange Plaza, 5th Floor,
Plot No. C-1, G-Block,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai - 400051

Ref: Company Code 530435 (BSE)

Ref: NOESIS (NSE)

Sub: Press Release of Financial Results for the Quarter Ended 30th June, 2018 under Regulation 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Dear Sir,


Please find enclosed herewith the photocopies of newspaper advertisements of Unaudited Financial results for the quarter ended 30/06/2018, approved in Board Meeting dated 13/08/2018 under Regulation 33 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 published in newspapers viz, Financial Express (English) dated 15/08/2018 and Jansatta (Hindi) dated 15/08/2018.

This is for your information and record.

Thanking You,

Yours truly,

For Noesis Industries Limited


Deepak Gupta
Director

Encl: a/a



NOVA IRON & STEEL LTD				
Regd. Office : Village Dagori, Tehsil - Belha, Distt Bilaspur (C.G.) Email: rai_nisi2007@yahoo.com,web: www.novaironsteel.com (CIN: L02710CT1989PLC010052) Tel.: 07752-285225-26, Fax: 077-52285213				
Extract from the Unaudited Financial Results for the Quarter Ended 30.06.2018 (Rs. in lacs)				
Sr. No.	Particulars	Quarter Ending	Year to date figures	Corresponding 3 months ended in the previous year
		30.06.2018	31.03.2018	30.06.2017
1.	Total income from operations	340.00	1007.15	565.81
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	49.30	858.99	(99.50)
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	49.30	858.99	(99.50)
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	47.94	859.77	(99.50)
5.	Total Comprehensive Income/ (Loss) for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	44.08	938.6	(99.50)
6.	Equity Share Capital	3613.95	3613.95	3613.95
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	(667.40)	(667.40)	(974.12)
8.	Earnings Per Share (of Rs. 0/- each) (for continuing and discontinued operations) Basic & Diluted	0.13	2.38	(0.28)

Note: a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange and the listed entity. (www.bseindia.com) (www.novaironsteel.com)

For and on behalf of Board of Directors
For Nova Iron & Steel Ltd.
Sd/- (H.C. Verma)
Whole Time Director (DIN 00007681)

Place: New Delhi
Date: 13.08.2018

Sun TV Network Limited	
CIN: L2210TN1985PLC012491	
Registered Office: Muraloli Maran Towers, 73, MRC Nagar Main Road, MRC Nagar, Chennai - 600 028, Tel. No. 044-44676767 Fax: 044-40676161 Email: tvinfo@sunnetwork.in Website: www.suntv.in	
Notice is hereby given that:- The 33rd Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company will be held on Monday, September 7, 2018 at 10.00 a.m. at Kalaigal Aranganam, Anna Arivalayam, Anna Salai, Teynampet, Chennai-600018 to transact the businesses as detailed in the Notice convening the Annual General Meeting. The Company is pleased to provide all its Members, the facility to exercise their votes through electronic voting (remote e-voting) in association with the M/s. Karvy Puttershare Private Limited (Karvy). Members holding shares as on the record date of 31st July, 2018 may cast their vote electronically. Members are informed that:- 1. The Ordinary/ Special Business as set out in the Notice of the AGM can be transacted through remote e-voting. 2. The Notice was dispatched to all the Members on August 14, 2018. 3. Any person who becomes a member of the Company after the dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e., August 31, 2018, may obtain the login ID and password by sending a request at elwrad.ris@karvy.com 4. Voting through electronic mode shall commence on September 4, 2018, Tuesday (9:00 am) and ends on September 6, 2018, Thursday (5:00 pm). 5. Voting through electronic mode shall not be allowed beyond 5.00 pm on September 6, 2018. 6. The Company has opted to provide at the AGM Venue, the physical voting facility by circulation of Ballot forms for all those members who are present at the AGM and have opted to cast their votes by availing the remote e-voting facility. 7. Any member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting. 8. Copy of the Notice is available on the website of the Company at www.suntv.in and also on the website of Karvy at https://evoting.karvy.com 9. In case of any queries members may refer the instructions on remote e-voting contained in the Notice or refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and user manual on the e-voting website of Karvy or contact Karvy on Telephone No. 1-800-3454-001 (toll free no) to get further clarifications. 10. Members can opt only one mode of voting, i.e., either by Physical Ballot or remote e-voting. If a Member casts votes by both modes, then voting done through remote e-voting shall prevail and Ballot shall be treated as invalid.	
For Sun TV Network Limited Sd/- R. Ravi Company Secretary & Compliance Officer	
Place : Chennai Date : 14.08.2018	

SVAM SOFTWARE LIMITED				
CIN: L72200DL1992PLC047327, S-524, VIKAS MARG SHAKARPUR DELHI 110092 EMAIL-ID- svamsoftwareltd@gmail.com Website: www.svamsoftwareltd.in				
STATEMENT OF STANDALONE UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2018 (₹ in Lakhs)				
Particulars	Quarter ended 30.06.2018	Quarter ended 30.06.2017	Year ended 31.03.2018	
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
Total Income from Operations	33.61	19.78	276.36	
Net Profit / (Loss) from ordinary before exceptional items and tax	-99.38	4.14	11.26	
Net Profit / (Loss) before tax	-99.38	4.14	11.26	
Net Profit/ (Loss) for the period after tax	-99.38	4.14	12.73	
Total Comprehensive income for the period (Comprising Profit/ (Loss) and other Comprehensive Income for the period)	-99.38	4.14	(22.25)	
Equity share Capital	1688.90	1688.90	1688.90	
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	276.38	
Earning Per Share (Face Value of ₹ 10/- each)				
Basic	-0.588	0.020	-0.134	
Diluted	-0.588	0.020	-0.134	

Note:-
The above is an extract of the detailed format of the financial results for the Quarter ended 30th June, 2018 filed with the Stock Exchanges. The full format of the financial results for the Quarter ended 30th June, 2018, is available on the website of the Stock Exchange www.bseindia.com and on Company's website www.svamsoftwareltd.in

For Svam Software Limited
SD/-
Sudhir Kumar Agarwal
Director

Place : New Delhi
Date: 14.08.2018

GRM OVERSEAS LIMITED						
Registered Office: 128, First Floor, Shiva Market Pitampura North Delhi- 110034 Website: www.grmice.com , Email id: grmrice1@gmail.com , Ph-011-47330330, Fax No: 011-0180 – 2653673 CIN: L74899DL1995PLC064007						
Extract of Consolidated and Standalone Financial Results for Quarter ended 30th June, 2018 [In terms of Regulation 47(1) (b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015]						
(Amount in Lakhs.)						
Particulars	Standalone			Consolidated		
	Quarter Ended June 30, 2018	Quarter Ended June 30, 2017	Year Ended March 31, 2018	Quarter Ended June 30, 2018	Quarter Ended June 30, 2017	Year Ended March 31, 2018
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
Total Income from Operations	25,593.60	33,416.26	92,496.03	26,940.34	33,465.90	94,422.45
Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	630.34	432.97	1,809.60	364.54	416.68	1,828.67
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	630.34	432.97	1,809.60	364.54	416.68	1,828.67
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	441.24	303.08	1,167.54	175.44	286.79	1,185.47

ALANKIT LIMITED				
CIN: L74900DL1989PLC036860 Regd. Office: 205-208, Anarkali Complex, Jhandewalan Extension, New Delhi-110055				
EXTRACT OF STATEMENT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30.06.2018 (Rs. In Lacs)				
Sr. No.	Particulars	Quarter Ended		Year ended
		30.06.2018 (Unaudited)	30.06.2017 (Unaudited)	31.03.2018 (Audited)
1	Total Income from Operations	2,621.40	2,883.05	10,733.16
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional Items)	445.35	692.14	2,540.76
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional Items)	445.35	692.14	2,540.76
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax	231.55	453.68	2,135.13
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	225.30	456.20	2,107.70
6	Equity Share capital	1,429.58	1,429.58	1,429.58
7	Reserves (excluding Revaluation reserves as per Balance Sheet of previous accounting year)	4,990.78	3,571.36	4,765.48
8	Earning per Share (of Re. 1/- each)(not annualised)			
1. Basic		0.16	0.32	1.49
2. Diluted		0.16	0.32	1.49

NOTES:
1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websites www.bseindia.com and www.nseindia.com. The same is also available on the Company's website www.alankit.in.
2. The above results have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable.

For ALANKIT LIMITED
Sd/-
ANKIT AGARWAL
MANAGING DIRECTOR

Date: 14.08.2018
Place: New Delhi

Jindal Cotex Limited				
Registered Office: V.P.O. Jugiana, G.T. Road, Ludhiana-141017. Ph No.0161-2511840 Fax:0161-2511843, CIN NO.L17115PB1998PLC021084				
Extract of Statement of Standalone Unaudited Financial Results for the Quarter Ended 30th June, 2018 (₹ in Lakhs)				
S. No.	Particulars	Standalone		
		Quarter ended 30-06-2018 Unaudited	Year Months ended 31.03.2018 Audited	Quarter ended 30-06-2017 Unaudited
1.	Total Income from operations	1326.29	3,591.77	80.27
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(125.79)	(770.64)	(230.64)
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(125.79)	(817.18)	(230.64)
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(125.79)	(817.18)	(230.64)
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(125.75)	(816.99)	(230.65)
6.	Equity Share Capital	4500.31	4,500.31	4,500.31
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	(3,723.40)	-
8.	Earnings per share (after extraordinary items) (of ₹ 10/- each) (Basic and Diluted in INR)	(0.28)	(1.82)	(0.51)

Notes:
1. The above Results for the quarter ended June 30, 2018 were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the company at its meeting held on August 14, 2018.
2. The above is an extract of the detailed format of Standalone unaudited financial Results for the quarter June 30, 2018 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Full format of the said Results are available on the Stock Exchange websites (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and on Company's website www.jindalcotex.com

By order of the Board
For JINDAL COTEX LIMITED
Sd/-
(Sandeep Jindal)
Managing Director

Place : Ludhiana
Date : 14.08.2018

JINDAL LEASEFIN LIMITED				
CIN: L74899DL1994PLC059252 Regd. Office: 110, Babar Road, New Delhi 110001				
EXTRACT OF STATEMENT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30.06.2018 (Rs. In Lakhs)				
Sr. No.	Particulars	Quarter Ended 30.06.2018 (Unaudited)	Quarter Ended 30.06.2017 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2018 (Audited)
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1	Total Income from Operations	-0.40	0.51	7.98
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or extraordinary Items)	39.99	-6.04	2.7
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or extraordinary Items)	39.99	-6.04	2.7
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or extraordinary Items)	40.01	-5.85	2.9
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	42.86	2.11	2.7
6	Equity Share capital	300.89	300.89	300.89
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	324.51	317.38	284.1
8	Earning per Share (of Rs. 1/- each)(not annualised)			
1. Basic		1.42	0.07	0.97
2. Diluted		1.42	0.07	0.97

Notes:-
1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual financial Results are available on the Stock Exchange website www.bseindia.com. The same is also available on the Company's website www.jltd.co.in
2. The above results duly reviewed by the Audit Committee, were approved by the Board of Directors in their meeting held on 14.08.2018

For JINDAL LEASEFIN LIMITED
Sd/-
RACHIT SINGHAL
MANAGING DIRECTOR

Date: 14.08.2018
Place: New Delhi

Kohinoor Foods Ltd.				
Regd./Corporate Office: Pinnacle Business Tower, 10th Floor, Shooting Range Road, Suraj Kund, Faridabad, Haryana-121001, Ph. No. 0129-4242222, Fax No. 0129-4242233 E-Mail: info@kohinoorfoods.in , Visit us at: www.kohinoorfoods.in CIN - L52110HR1989PLC070351				
EXTRACT OF UN-AUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULT FOR THE QUARTER ENDED 30 TH JUNE, 2018 (Rs. in Lakhs, except per share Data)				
Sl. No.	Particulars	Quarter Ended 30.06.2018 (Un-Audited)	Quarter Ended 31.03.2018 (Audited)	Year Ended 31.03.2018 (Audited)
		(Un-Audited)	(Audited)	(Audited)
1	Total Income from Operations (net)	2516	19006	86240
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	-3201	-7705	-6957
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-3201	-7705	-6957
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-3201	-7700	-7102
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	-3201	-7694	-7097
6	Equity Share Capital (face value of Rs. 10/-each)	3524	3524	3524
7	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)			
1. Basic:		-9.08	-21.83	-20.14
2. Diluted:		-9.08	-21.83	-20.14

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the BSE Limited (BSE) website (www.bseindia.com), National Stock Exchange of India Limited (NSE) website (www.nseindia.com) and on the Company's website (www.kohinoorfoods.in).

For Kohinoor Foods Ltd.
Sd/-
(Gurnam Arora)
Jt. Managing Director

Place: Faridabad
Date: 14.08.2018

DELTA LEASING AND FINANCE LIMITED				
CIN: L67120DL1983PLC016990, Website: www.deltaleasing.in , E-mail: info@deltaleasing.in Regd Office: 55, F.I.E., Patparganj Industrial Area, Delhi-110 092 Un-audited Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2018				
PART I Statement of Un-audited Financial Results for the Quarter Ended 30th June, 2018 (Rs. in Lakhs)				
S. No.	Particulars	Current Quarter ended 30-06-2018 Un-audited	Previous Year 30-06-2017 Un-audited	Previous Year ended 31-03-2018 Audited
		(Un-audited)	(Un-audited)	(Audited)
1	Total Income from operations	22.17	36.07	119.20
2	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	1.25	0.15	0.16
3	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1.25	0.15	0.16
4	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1.25	0.15	0.11
5	Equity Share Capital	1160.23	1160.23	1160.23
6	Reserves (excluding Revaluation Reserve) (as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year)	971.76	0.00	971.76
7	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)			
-Basic		0.01	0.00	0.00
-Diluted		0.01	0.00	0.00

Notes:
1. The above result was taken on record by the Board of Directors in the meeting held on 14th August, 2018.
2. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulations 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
3. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and Company's website (www.deltaleasing.in).

For and on behalf of the Board of Directors
Delta Leasing & Finance Limited
Sd/-
(Renu Jindal)
Managing Director
DIN: 01943489

Place: New Delhi
Date: 14.08.2018

Noesis Industries Limited

Regd. Office : 1201 B, 12th Floor, Hemkunt Chamber, 89 Nehru Place, New Delhi - 110019
CIN No.: L32109DL1986PLC026273 Web : mvindustries.in
Extract of Standalone Unaudited Financial Results for the Quarter Ended 30th June, 2018

(Rs. In Lacs)

S. No.	Particulars	STANDALONE			
		Quarter ended 30.06.2018 (Unaudited)	Previous Year ended 31.03.2018 (Audited)	Corresponding Year ended 30.06.2017 (Unaudited)	Current Year ended 31.03.2018 (Audited)
1	Total Income from Operations	-	0.80	-	1.02
2	Net Profit/ (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	(16.22)	(11.13)	(21.09)	(67.25)
3	Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	(16.22)	(11.13)	(21.09)	(67.25)
4	Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	(16.22)	(11.13)	(21.09)	(67.25)
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	-	-	-	-
6	Equity Share Capital	2,632.91	2,632.91	2,632.91	2,632.91
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-	(26,615.04)
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -	(0.06)	(0.04)	(0.08)	(0.26)
1.	Basic:	(0.06)	(0.04)	(0.08)	(0.26)
2.	Diluted:	(0.06)	(0.04)	(0.08)	(0.26)

a) e above is an extract of the detailed format of Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2018 filed with the Stock Exchanges under Regulation of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of Standalone Quarterly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) i.e. (www.bseindia.com & www.nseindia.com) and company's website is www.mvindustries.in

b) e above financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 13th August, 2018 and we have undergone "Limited review report" by the Statutory Auditors of the Company for the quarter ended 30th June, 2018.

c) ese standalone financial results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles of Indian Accounting Standards (Ind AS) - "Interim financial reporting" as notified under Section 133 of Companies Act, 2013 read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2016.

d) mpany's operations during the period / year are Nil.

e) In line with the provisions of Ind AS-108 - Operating Segments, the operation and on the basis of review of operations being done by the management of the company, the operation of the company falls under Consumer Electronics business, which is considered to be the only reportable segment by the management.

f) vious year/period figures have been regrouped/rearranged wherever necessary to facilitate comparison.

For and on behalf of the Board of Directors
Noesis Industries Ltd
Sd/-
(Prem Adip Rishi)
Managing Director
DIN-00620611

Place : Gurugram
Date : 13th August, 2018

||
||
||

Noesis Industries Limited
Regd. Office : 1201 B, 12th Floor, Hemkunt Chamber, 69 Nehru Place, New Delhi - 110019
CIN No. : L32109DL1986PLC028273 Web : mvindustries.in
Extract of Standalone Unaudited Financial Results for the Quarter Ended 30th June, 2018

(Rs. In Lacs)

SN	Particulars	STANDALONE			
		Quarter ended 30.06.2018 (Unaudited)	Previous Quarter ended 31.03.2018 (Audited)	Corresponding Year ended 30.06.2017 (Unaudited)	Current Year ended 31.03.2018 (Audited)
1	Total Income from Operations	-	0.80	-	1.02
2	Net Profit/ (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)#	(16.22)	(11.13)	(21.09)	(67.25)
3	Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)#	(16.22)	(11.13)	(21.09)	(67.25)
4	Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)#	(16.22)	(11.13)	(21.09)	(67.25)
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	-	-	-	-
6	Equity Share Capital	2,632.91	2,632.91	2,632.91	2,632.91
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-	(26,615.04)
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) - 1. Basic:	(0.06)	(0.04)	(0.08)	(0.26)
2.	Diluted:	(0.06)	(0.04)	(0.08)	(0.26)

Note:

a) The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2018 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of Standalone Quarterly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) i.e. (www.bseindia.com & www.nseindia.com) and company's website is www.mvindustries.in

b) The above financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 13th August, 2018 and have undergone "limited review report" by the Statutory Auditors of the Company for the quarter ended 30th June, 2018.

c) The standalone financial results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles of Indian Accounting Standards (Ind AS-34) - "Interim financial reporting" as notified under Section 133 of Companies Act, 2013 read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2016.

d) Company's operations during the period / year are Nil.

e) In line with the provisions of Ind AS-108 - Operating Segments, the operation and on the basis of review of operations being done by the management of the company, the operation of the company falls under Consumer Electronics business, which is considered to be the only reportable segment by the Management.

f) Previous year/period figures have been regrouped/rearranged wherever necessary to facilitate comparison.

For and on behalf of the Board of Directors
Noesis Industries Ltd
Sd/-
(Prem Adip Rishi)
Managing Director
DIN-00020611

Place : Gurugram
Date : 13th August, 2018

Kohinoor Foods Ltd.					
Regd./Corporate Office: Pinnacle Business Tower, 10th Floor, Shooting Range Road, Suraj Kund, Faridabad, Haryana-121001, Ph. No. 0129-4242222, Fax No. 0129-4242233 E-Mail: info@kohinoorfoods.in, Visit us at: www.kohinoorfoods.in CIN - L52110HR1989PLC070351					
EXTRACT OF UN-AUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULT FOR THE QUARTER ENDED 30 th JUNE, 2018					
(Rs. in Lakhs, except per share Data)					
Sl. No.	Particulars	Quarter Ended 30.06.2018 (Un-Audited)	Quarter Ended 31.03.2018 (Audited)	Quarter Ended 30.06.2017 (Un-Audited)	Year Ended 31.03.2018 (Audited)
1	Total Income from Operations (net)	2516	19006	26923	86240
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	-3201	-7705	427	-6957
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-3201	-7705	427	-6957
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-3201	-7700	342	-7102
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	-3201	-7694	342	-7097
6	Equity Share Capital (face value of Rs. 10/- each)	3524	3524	3524	3524
7	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)				
	1. Basic:	-9.08	-21.83	0.97	-20.14
	2. Diluted:	-9.08	-21.83	0.97	-20.14
Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the BSE Limited (BSE) website (www.bseindia.com), National Stock Exchange of India Limited (NSE) website (www.nseindia.com) and on the Company's website (www.kohinoorfoods.in).					
Place: Faridabad Date: 14 th August, 2018					
For Kohinoor Foods Ltd. Sd/- (Gurnam Arora) Jt. Managing Director					

Apoorva Leasing Finance & Investment Co. Ltd.
 L74899DL1983PLC016713; Ph. No: 0120-4372849, 011- 65333451;
 E-mail : apoorvaleasing@gmail.com; Website: www.apoorvaleasingfinance.com
 Regd. Off: 13/331, Geeta Colony, Third Floor, Delhi-110031, Corp. Off: C-1/9, Sec-31, Noida, Uttar Pradesh-201301

Extract of Standalone Financial Results for the Quarter and the period ended on 30th June, 2018			
	Amount in Lacs		
Particulars	Standalone		
	Quarter Ended on 30.06.2018	Quarter Ended on 31.03.2018	Year Ended on 31.03.2018
	Unaudited	Audited	Audited
Total Income from Operations (net)			
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	236.66	65.68	384.34
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	236.66	65.68	384.34
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	175.13	47.65	278.00
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	181.94	113.08	343.43
Paid-up equity share capital [Face value Rs. 10 per share]	1,997.49	1,997.49	1,997.49
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	10,158.98
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -			
Basic:	0.91	0.57	1.72
Diluted:	0.91	0.57	1.72


Note s:

1 The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results for the three months ended and year ended on 30th June, 2018 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Standalone Financial Results for the three months ended on 30th June, 2018 are available on the Stock Exchange website www.bseindia.in and the Company's website www.apoorvaleasingfinance.com.

2 # - Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-AS Rules / AS Rules, whichever is applicable.

Apoorva Leasing Finance and Investment Company Limited
 Sd/-
Atul Singh Tyagi
Managing Director cum CFO
 DIN: 01335008

Date :14th August, 2018
 Place: Noida



EON ELECTRIC LIMITED

Regd. Office: 1048, Sector-14, Sonapat-131 001 (Haryana)
 Corporate Office: B-88, Sector-83, Noida-201305 (Uttar Pradesh)
 Corporate Identification Number (CIN) : L31200HR1989 PLC035580
 Tel : +91-120-3096700 Fax: +91-120-3096800
 E-mail: investors@eonelectric.com Website: www.eonelectric.com

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2018

(₹ in Lacs)

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended			Year Ended
		30-Jun-18 (Unaudited)	31-Mar-18 (Audited)	30-Jun-17 (Unaudited)	31-Mar-18 (Audited)
1	Total Income from Operations	1,534.19	3,734.81	4,354.60	16,382.79
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax and Exceptional Items)	(844.34)	(65.54)	42.60	88.02
3	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional Items)	(844.34)	(65.54)	42.60	88.02
4	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional Items)	(808.27)	(86.93)	54.97	43.63
5	Total Comprehensive Income/(Loss) for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after Tax) and Other Comprehensive Income (after Tax)]	(815.09)	(71.50)	50.90	52.60
6	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of ₹ 5/- each)	845.12	845.12	802.87	845.12
7	Other Equity (excluding Revaluation Reserve)	-	-	-	11,630.16
8	Earnings Per Share (before extraordinary items) (Face Value of ₹ 5/- each)				
	- Basic (₹)	(4.78)	(0.53)	0.34	0.27
	- Diluted (₹)	(4.78)	(0.53)	0.34	0.27

NOTE: (1) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results is available on the Stock Exchange websites : NSE : www.nseindia.com and BSE : www.bseindia.com and on the Company's website www.eonelectric.com

for and on behalf of the Board

~Sd~

(V. P. Mahendru)

Place: New Delhi

Dated: August 14, 2018

Chairman - Managing Director

DIN 00053338



कार्पोरेशन बैंक

सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रणी बैंक

कार्यालय नं. 104, प्रथम तल, सेक्टर-डी, पोस्ट-8 और 9
सीएसएस, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070
फोन नं. **011-26124009**

कर्जदार मैसर्स जेटीके लॉजिस्टिक्स प्रा. लि., कार्यालय एच ब्लॉक, 92 / 226, ग्रा. नि. 7 मणियापुर, नई दिल्ली-110037

जैनेन्द्र जेना (गारंटर)
श्रीमती कल्पना जेना पत्नी श्री जैनेन्द्र जेना (गारंटर) श्रीमती गीतांजली लेन्का पत्नी श्री संजय कुमार पारीदा (गारंटर), सभी निवासी: प्लॉट नं. के1/100, खसर नं. 65/24, बाका सिवाना, गाँव बाका, तहसील और जिला मुर्गाँव

आइटम / इनवेन्ट्री की शिपिंग के लिए उधारकर्ता / गारंटरो को नोटिस

सम्पत्ति मकान नं. के-1/100, खसर नं. 65/24, फेज-1, न्यू प्लाज्मा विहार, वाका सिवाना गाँव बाका, मुराणाम, हरियाणा नं. रबी है।

ऋण खाता मैसर्स जेटीके लॉजिस्टिक्स प्रा. लि. के संदर्भ में सुचित किया जाता है कि हमारी शाखा ने दिनांक 01.12.2016 को एनपीए के रूप में शिफ्ट कर दिया था। रितीय परिस्थितियों के मुताबिक और पुनर्निर्माण के प्रयासों और सुरक्षित निवेश अनिवार्य, 2002 के प्रयासों के संदर्भ में, बैंक ने 31.07.2018 को उपरोक्त उल्लिखित संपत्ति का नुकसान कक्षा एसबी डीएम द्वारा निरुक्त ग्यालसरी रीसीवर के माध्यम से लिया था। दिनांक 19.08.2018 के आदेश के अनुसार चार पृष्ठ गुरुग्राम का कदम उठाते हैं कि आप श्री ज्ञानेंद्र जेना, श्रीमती कल्पना जेना पत्नी श्री ज्ञानेंद्र जेना और श्रीमती गीतांजली लेन्का पत्नी संजय कुमार पारीदा, उस दिनांक परस्थित थे, जो पंजनामा और इनवेन्ट्री की सूची द्वारा करने के बाद कक्षा लिया गया था। तैयार वस्तुओं की सूची में श्री ज्ञानेंद्र जेना और श्री संजय कुमार पारीदा पति श्रीमती गीतांजली लेन्का के हस्ताक्षर लिख गए थे।

अनुपस्थिति के माध्यम से हम आपसे अनुरोध करते हैं कि पुरस्कर्त में रखे सूची के अनुसार अपने सामान को इस सूचना की प्राम्ति की तिथि से 7 दिनों के अंदर स्वयंभारित कर ले अन्यथा बैंक गीनाम में इनपुट को स्वयंभारित करने के लिए बाध्य होगा जोकि आपकी लागत पर होगा। स्वयंभारण के कारण किसी भी लेख में होने वाली किसी भी क्षति या हानि के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।

इसलिए, आपको शाखा से संपर्क करने और अपने सामान का दावा करने और सुरत सूची में स्वयंभारण करने के लिए तत्काल कदम उठाने की सलाह दी गई है, लेकिन इन स्थानों की प्राम्ति की तातेख से 07 दिनों के बाद नहीं होगा।

दिनांक : 13.08.2018 थातन : दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी, कार्पोरेशन बैंक

<p style="text-align: center;">सूरज इण्डस्ट्रीज़ लि. CIN: L26943HP1992PLC016791 पंजी. कार्या.: प्लॉट नं. 2, पफेज 111, संसारपुर टेरस, कांगडा, हिमाचल प्रदेश-173212 कार्पो. कार्या.: एफ-32/3, प्रथम तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-11, नई दिल्ली-110020 ई-मेल: secretarial@surajindustries.org; वेबसाइट: www.surajindustries.org</p>				
<p>30 जून 2018 को समाप्त तिमाही को अग्रांकक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों को विवरण का सार</p>				
क्र. सं.	विवरण	30-06-2018 को समाप्त तिमाही (अनग्रक्षित)	31-03-2018 को लेखा वर्ष समाप्ति तिमाही (अग्रक्षित)	30-06-2017 को समाप्त तिमाही (अनग्रक्षित)
1.	परिचालनों से कुल आय (शुद्ध)	0.00	3.16	0.00
2.	सामान्य संचालनों से शुद्ध लाभ / (हानि) (कर पूर्व, असाधारण और / या असाधारण मदें)	(6.14)	0.00	(3.64)
3.	कर पूर्व शुद्ध लाभ / (हानि) (असाधारण और / या असाधारण मदों के परभावः)	(6.14)	(12.29)	(3.64)
4.	अवधि के लिए कर परभाव शुद्ध लाभ / (हानि)	(6.14)	(12.29)	(3.64)
5.	अवधि के लिए कुल व्यापक आय / अवधि का (कर परभाव) लाभ / (हानि) तथा अन्य व्यापक आय (कर परभाव) शामिल है ,	(6.14)	(12.29)	(3.64)
6.	इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य 10/- रु प्रत्येक)	728.6	728.6	734.30
7.	रिजर्व (गत वर्ष के तुलन पत्र में दर्शाए गए अनुसार पुनर्मूल्यांकित रिजर्व को छोड़कर)		0.00	0.00
8.	अर्जन प्रति शेयर (असाधारण मदों से पश्चात) (प्रत्येक 10/- रु) (जारी और बंद संचालनों के लिए) (*) गैर वार्षिक (क) बैसिक (ख) डायल्यूटेड	'(0.08)* '(0.08)*	'(0.17)* '(0.17)*	'(0.05)* '(0.05)*
<p>टिप्पणी:</p> <p>1. उपर्युक्त परिणाम लेखा परीक्षा समिति द्वारा और इसके बाद निदेशक मंडल द्वारा 14 अगस्त, 2018 को आयोजित उनकी बैठकों में अपनाया गया था।</p> <p>2. बीजे (सूचीबद्ध एवं अन्य उद्घोषणा अनिवार्यताएँ) विनियमन 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत उपरोक्त विनियमन के तहत बोर्स स्टॉक एक्सचेंज के साथ दायर तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक निकास है। तिमाही परिणामों का पूरा फॉर्म स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com) पर उपलब्ध है।</p> <p>3. शेयरमैट रिपोर्टिंग लागू नहीं है क्योंकि कंपनी की गतिविधियाँ एक ही व्यवसाय खंड में आती हैं।</p> <p>4. पिछले वर्षों के आंकड़े उन्हें वर्तमान अवधि के तुलनीय बनाने के लिए पुनः व्यवस्थित / पुनः व्यवस्थित किए गए हैं।</p>				
<p style="text-align: right;"> नॉर्ड की आज्ञानुसार वास्तु सूरज इण्डस्ट्रीज़ लि हस्ता / - अतुल जैन, पूर्णकालिक निदेशक </p>				
<p>स्थान: नई दिल्ली दिनांक: 15 अगस्त, 2018</p>				

1. **प्रांसी की नियुक्ति**
जिन शेयर धारकों को बैठक में भाग लेने का अधिकार है, उन्हें अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने के लिए एक प्रांसी नियुक्त करने का अधिकार है। प्रत्येक प्रांसी का कारपोरेशन बैंक का शेयर धारक होना आवश्यक नहीं है।
तथापि, इस प्रकार नियुक्त प्रांसी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा।
कारपोरेशन बैंक में कार्यरत अधिकारी या कर्मचारी को प्रांसी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता।
मान्य एवं प्रभावी होने हेतु प्रांसी फार्म बैठक प्रारंभ होने की तिथि से **कम-से-कम चार दिन पहले अर्थात् 1 सितंबर 2018 को अपराह्न 5.00 बजे** कार्यालय समय की समाप्ति या उससे पूर्व बैंक के निवेशक सेवा प्रभाग, प्रधान कार्यालय, मंगलादीर्घा मंदिर मार्ग, मंगलूर - 575 001, कर्नाटक राज्य में प्राप्त हो जाना चाहिए।
2. **प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति**
बैंक के शेयरधारक कंपनी निकाय के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति, असाधारण महासभा में भाग लेने और मतदान करने हेतु तब तक हकदार नहीं होगा, जब तक उसे विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करनेवाले संकल्प की प्रति को उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा, जिस बैठक में वह पारित किया गया हो, सत्य प्रति प्रमाणित किया गया हो, बैठक की तिथि से **कम-से-कम चार दिन पहले अर्थात् 1 सितंबर 2018 को अपराह्न 5.00 बजे** कार्यसमय की समाप्ति अथवा उससे पूर्व बैंक के प्रधान कार्यालय में कंपनी सचिव, कारपोरेशन बैंक, निवेशक सेवा विभाग, प्र.का. मंगलूर 575001, कर्नाटक को प्रस्तुत नहीं किया जाता है।
3. उपरोक्त वर्णित कार्यक्रम से संबंधित जानकारी व्याख्यात्मक विवरण के साथ असाधारण महासभा के नोटिस दिनांक 11.08.2018 में दी गई है। ई-वोटिंग की विधि तथा प्रक्रिया की जानकारी जानकारी देने वाली नोटिस को उपस्थिति पत्नी और प्रांसी फार्म के साथ साथ शेयरधारकों को दिनांक 13.08.2018 तक उनके पंजीकृत पते या ई-मेल पते पर भेज दिया गया है। साथ ही यह बैंक की वेबसाइट www.corpbank.com, इलेक्ट्रॉनिक वॉटिंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध करने वाली कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि. की साइट <https://evoting.karvy.com> तथा बीएसई एवं एनएसई की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।
4. **भारत सरकार को अधिमान्ती शेयर हेतु संगत तिथि**
उपरोक्त व्यापार मद संख्या 1 के लिए सेबी आईसीडीआर के विनियमों के क्रम में प्रतिभूतियों के मूल्य निर्धारण की संगत तिथि 8 अक्टूबर 2018 होगी।
5. यथास्थिति कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 के प्रावधानों के अनुपालन में बैंक, अपने सदस्यों को असाधारण महासभा (ईजीएम) में प्रस्तावित संकल्पों को पास करने हेतु अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपने मत के अधिकार का प्रयोग करने हेतु ई-वोटिंग सुविधा सहर्ष प्रस्तुत करता है। सदस्य अपने मताधिकार का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक वॉटिंग सिस्टम के माध्यम से बैठक की जगह के अतिरिक्त अन्य जगह से भी कर सकते हैं (रिमोट ई-वोटिंग)। इलेक्ट्रॉनिक वॉटिंग सिस्टम से वॉटिंग करने की सुविधा (इस्टा पोल) को बैठक के स्थान पर उपलब्ध कराया जायेगा तथा बैठक में आने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा वॉटिंग नहीं की है वे इस्टा पोल द्वारा अपना वोट दे सकते हैं।
6. जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपने मत का प्रयोग किया है वे भी बैठक में भाग ले सकेंगे लेकिन पुनः मतदान हेतु पात्र नहीं होंगे। यहाँ स्पष्ट किया जाता है कि शेयरधारक के लिए रिमोट ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करते हुए मत देना अनिवार्य नहीं है और शेयरधारक इस सुविधा का उपयोग अपने विवेकानुसार कर सकता है।
7. **कट-ऑफ तिथि**
एक व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी के पास रहे लाभांश स्वामी के रजिस्टर में कट-ऑफ तिथि 1 सितंबर 2018 को दर्ज होगा वही रिमोट ई-वोटिंग / इस्टा पोल के लिए पात्र होगा।
8. **रिमोट ई-वोटिंग 04 सितंबर 2018 (प्रारंभ: 9 बजे) से शुरू होगा 06 सितंबर 2018 (समाप्त: 5.00 बजे)** को समाप्त होगी तथा इस तिथि एवं समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी। **कट-ऑफ तिथि** का इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक रूप से बैंक शेयरों को धारण करने वाले शेयरधारक इस तिथि के दौरान अपने मताधिकार का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक ढंग से कर सकते हैं अथवा असाधारण महासभा में वोट कर सकते हैं।
9. सुश्री वलक्ष्मी, सहायक महा प्रबंधक, कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि., यूनिट: कारपोरेशन बैंक, कार्वी सेलेनियम टावर-बी, प्लॉट सं. 31 व 32 फाउनेसियल डिस्ट्रिक्ट, गाचीबागवली, नासर्गमूडा, सेलेनियम पार्क, हैदराबाद - 500 032, फोन- 040-67161514 अथवा दूरभाष संख्या 18003454001 (टोल फ्री), ई-मेल- vlakshmi.p@karvy.com इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वॉटिंग में आने वाली शिकायतों के निपटान हेतु जिम्मेदार होंगी।
10. ईजीएम नोटिस मेजे जाने का बाद जिस व्यक्ति ने कारपोरेशन बैंक के शेयर प्राप्त किये हों तथा बैंक का शेयरधारक बन गया हो वह लासिन आई टी तथा पासवर्ड प्राप्त करने के लिए रिमोट ई-वोटिंग समाप्त होने से पर्याप्त समय पूर्व बैंक को isd@corpbank.com पर मेल कर सकता है या शेयरधारिता के प्रमाणित समुच्चय को साथ बैंक को डाक भेज सकता है अथवा कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि. को vlakshmi.p@karvy.com पर मेल कर सकता है।
11. बैंक ने उन सभी शेयरधारकों को ईजीएम नोटिस की हार्ड प्रिंट भेजी है जिन्होंने अपने ई-मेल आईडी को अपने डिपॉजिटरी अधिकारी / बैंक के रजिस्ट्रार के साथ पंजीकृत नहीं किया है। यह बैंक की वेबसाइट www.corpbank.com के 'निवेशक संवर्ध' शीर्षक के अंतर्गत भी उपलब्ध है।

पंद्रह अगस्त से पांच दिन पहले मनाया गया स्वतंत्रता दिवस

इंदौर, 14 अगस्त (भाषा)।

देश का 72वां स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को जोर-शोर से मनाया जाएगा। लेकिन दिन दशक पुरानी परंपरा के चलते मध्य प्रदेश के मंदसौर शहर के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर में आजादी का सालाना पर्व 10 अगस्त को ही मना लिया गया। दरअसल, इंदौर से लगभग 250 किलोमीटर दूर मंदसौर में शिवना नदी के किनारे के इस प्राचीन मंदिर में स्वतंत्रता दिवस हिंदू पंचांग के आधार पर मनाया जाता है।

पशुपतिनाथ मंदिर के पुरोहितों और यजमानों की संस्था ज्योतिष व

कर्मकांड परिषद के अध्यक्ष उमेश जोशी ने मंगलवार को बताया कि 15 अगस्त, 1947 को जब देश अंग्रेजी राज से आजाद हुआ, तब हिंदू पंचांग के मुताबिक श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी थी लिहाजा, भगवान शिव के मंदिर में हर साल इसी तिथि के अनुसार पूजा-पाठ कर स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि इस बार यह तिथि (श्रावण कृष्ण चतुर्दशी) 10 अगस्त को पड़ती। लिहाजा, हमने अपनी परंपरा के अनुसार इसी तिथि को पशुपतिनाथ मंदिर में स्वतंत्रता दिवस मनाया।

फाइल नं 3/19/2018-एसडी/एम विज्ञापन नं-33/2018

 **इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र** 

(भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त न्यास)

संस्कृत विस्था मैस, जनपथ, नई दिल्ली-110001

प्रोजेक्ट एसोशिएट (राजभाषा एकक) की भर्ती हेतु

इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र (आई.जी.एन.सी.ए.) अपने राजभाषा एकक के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए पूर्णतः अनुबंध के आधार पर एक प्रोजेक्ट एसोशिएट की भर्ती करना चाहता है।

वाक-इन-इन्टरव्यू दिनांक **20.08.2018** को प्रातः **11:00** बजे, आई.जी.एन.सी.ए. के सम्मेलन कक्ष में किया जाएगा। उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे प्रातः **10:00** बजे मूल प्रमाण-पत्रों के साथ रिपोर्ट करें।

आवेदन पत्र व पूर्ण विवरण हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है।
<http://ignca.nic.in/recruitments/> पर उपलब्ध है।

निदेशक (प्रशासन)
इ.ग.रा.क. केन्द्र

punjab national bank
...the name you can **BANK** upon!

B.O. : Anand Vihar , Delhi- 110092

POSSESSION NOTICE (For Immovable Property)

The undersigned being the Authorised Officer of The Punjab National Bank under The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with rule 9 of Security Interest Enforcement Rules, 2002, the undersigned has issued a Demand Notice dated 15/01/2018 calling upon the borrower **Shri Mohan Prasad Gupta S/o Late Shri Ram Nath Gupta and Shri Raju Gupta** to repay the amount mentioned in the notice being **Rs. 15,72,001.00/-** cost and other expenses within 60 days from the date of receipt of the said Notice.

The Borrower and the guarantors having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower / guarantors and the public in general that the undersigned has taken the Symbolic / Physical Possession of the property owned by **Shri Mohan Prasad Gupta S/o Late Shri Ram Nath Gupta** described herein below in exercise of the power conferred on him/ her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 9 of the said Rule on this **8th August of the Year 2018**

The borrower / guarantors in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealing with the property will be subject to the charge of **PUNJAN NATIONAL BANK** for an amount of **Rs. 15,72,001.00/- (Fifteen Laks Seventy Two Thousand And One Rupee Only)** as on 11/01/2018 with further interest, cost and other expenses until payment in full.

Description of Immovable Property/ies

All that part and parcel of the property on "As is where is" basis, situated at **EW5 Flat No 12,First Floor,Block C – 14, Sector 71, Noida, U.P in the name of Shri Mohan Prasad Gupta S/o Late Shri Ram Nath Gupta**
Bounded - Towards East: As per Site , Towards West: As per Site, Towards North: As per Site, Towards South:As per Site.

Dated : 14.08.2018, Authorised Officer

(CIN: L31501HR1993PLC033993)					
पंजी. कार्यालय: नरेला पिथाऊ मनिहारी रोड, कुण्डली, जिला सोनीपत- 131028, हरियाणा					
भाग-1		(आंकड़े लाखों में)			
I	क) प्रचालनों से शुद्ध राजस्व	343.31	378.33	215.15	1464.01
II	ख) अन्य आय	0.49	65.76	0.76	67.34
III	I+II				
	क) खपत सामग्री की लागत	200.29	262.03	129.18	992.24
	ख) तैयार सामग्री, प्रगति में काबोज तथा व्यापार में भंडार में परिवर्तन (वृद्धि/कमी)	-0.97	15.77	-3.32	4.32
	ग) कर्मचारी लाभ व्यय	47.84	54.97	23.48	171.89
	घ) वित्त लागत	2.02	-1.11	0.14	2.20
	ङ) मूल्यहासत एवं परीशोधन खर्चें	29.00	21.73	30.45	117.68
	च) अन्य व्यय	35.18	59.96	27.38	148.38
IV					
V		30.44	30.73	8.60	94.64
	III-IV				
VI	निशिष्ट मद	-	-	-	-
VII		30.44	30.73	8.60	94.64
VIII	VI				
IX	कर व्यय	11.00	27.97	2.50	43.62
		19.44	2.76	6.10	51.02
X					
XI		-	-	-	-
XII		-	-	-	-
	X-XI				
XIII		19.44	2.76	6.10	51.02
	IX+XII				
	क) मदें जो लाभ अथवा हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं होंगी	-	-	-	-
	घटाकर: आय कर से संबंधित मद जो लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं होगी	-	-	-	-
	ख) मदें जो लाभ या हानि में वर्गीकृत नहीं होंगी	-	-	-	-
	घटाकर: मदों से संबंधित आय कर जो लाभ व हानि में वर्गीकृत नहीं होगी	-	-	-	-
XIV					
XV		19.44	2.76	6.10	51.02
		688.95	688.95	688.95	688.95
		1021.93	993.49	948.57	993.49
XVI					
	क) मूल	0.28	0.040	0.080	0.74
XVII	ख) तरल	0.28	0.040	0.080	0.74
	क) मूल	-	-	-	-
XVIII	ख) तरल	-	-	-	-
	क) मूल	0.28	0.040	0.080	0.74
	ख) तरल	0.28	0.040	0.080	0.74

[illegible]